



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण 1937 (श10)

(सं० पटना 1284) पटना, मंगलवार, 24 नवम्बर 2015

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचनाएं

3 fl rEcj 2015

सं० 7 / वि०पु०ह०-203 / 2010गृ०आ०-6358— बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-55 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक-1978 (समय-समय पर यथा संशोधित) के खंड 4 (क) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-

संशोधन

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 भाग-III के परिशिष्ट-72 के खण्ड 4 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

“(क) सिपाही की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित केन्द्रीय चयन पर्षद (भर्ती बोर्ड) के द्वारा, चालक सिपाही का भी चयन किया जायेगा। इस पर्षद में पुलिस महानिदेशक के द्वारा, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मनोनित मोटर वाहन निरीक्षक/तकनीकी विशेषज्ञ को भी शामिल किया जायेगा।”

यह पर्षद शारीरिक जाँच एवं मोटर वाहन संचालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा, जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी, जो अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों का चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भांति जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कौशलेन्द्र पाठक,

सरकार के अपर सचिव।

The 3rd September 2015

No. 7/B.P.H-203/2010 H(P)-6358—In exercise of power conferred under section 55 of Bihar Police Act, 2007. The Governor of Bihar hereby makes the Following amendment in para 4 (A) of the Bihar Police Mannual 1978 (as amended from time to time) with Immediate effect.

Amendment

Para 4 (A) of the Bihar Police Mannual, 1978 part-III, Appendix-72 will be substituted by the following :-

"Selection of the driver constables will be made by the Central Selection Board constituted by the Director General of Police for the appointment of constables. In this board Director General of Police will include Motar Vehicle Inspector/Technical Expert nominated by Principal Secretary, Transport Department/State Transport Commissioner.

This Board will sent recommendations of successful candidates in physical measurement test and motor driving test to the Superintendents of District Police/Commandants of Battalions who will make appointments of the recommended candidates. Before appointment, they will ensure verification of character and identification of selected candidates after proper enquiry.

By order of the Governor of Bihar,
Kaushalendra Pathak,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1284-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>